

तुरंत रिलीज के लिए

पूरी दुनिया के स्वादिष्ट भोजनों का मज़ा लोकल ही लें: सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ब्रैम्पटन फूड गाइड की शुरुआत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 मार्च, 2021) – ग्लोबल तौर पर प्रेरित और लोकल तौर पर आधारित, [ब्रैम्पटन फूड गाइड \(Brampton Food Guide\)](#) अब ऑनलाइन उपलब्ध है!

ब्रैम्पटन फूड गाइड (Brampton Food Guide) में 50 रेस्टोरेंट्स और मार्किट्स पेश की गई हैं। यह गाइड सिटी के बेस्ट बाइट्स (Best Bites), लोकल शेफ फेवरिटेस (Chef Favourites) के बारे में बताती है, ब्रैम्पटन का बर्गर टूर (Burger Tour) और लोकल फूड संबंधी प्रभावशाली व्यक्तियों की सलाह पेश करती है, जिनमें शामिल हैं:

- एंड्रिया बैरेट (Andria Barrett), स्वास्थ्य और पोषण स्पीकर
- सुरेश डोस (Suresh Doss), सी.बी.सी. (CBC) फूड और ड्रिंक लेखक
- एडन हैगोस (Eden Hagos), ऑनलाइन फूड प्लेटफार्म ब्लैक फूडी (BLACK FOODIE) के संस्थापक
- रॉयस ली (Royce Li), पूर्व टीम कॅनेडा पेस्ट्री शेफ (Team Canada Pastry Chef) और पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Peel District School Board) के हाई स्कूल अध्यापक
- रिक मथारू (Rick Matharu), 'रेसिपी टू रिचेस' ('Recipe to Riches') के विजेता, शेफ, रिकज गुड ईट्स (Rick's Good Eats) के मालिक
- कीफर नज़रेथ (Kiefer Nazareth), मि. सोशल ईट्स (Mr. Social Eats) के डिजिटल मार्किटर और संस्थापक
- हवाया माई (Haviah Mighty), पोलारिस म्यूजिक (Polaris Music) इनाम-विजेता कलाकार
- किरण राय (Kiran Rai), अभिनेत्री और रचनात्मक डायरेक्टर
- जेसन रोसो (Jason Rosso), शेफ और मालिक, जे. रेड एंड कंपनी (J. Red & Co.)

ब्रैम्पटन फूड गाइड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

हवाले

“कॅनेडा के सबसे अधिक विविध समुदायों में से एक के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, भोजन संबंधी बेजोड़ अनुभव पेश करता है, जो पूरी दुनिया के भोजन के साथ असली स्वाद में संपन्न है। स्वतंत्र कारोबारों को सुरक्षित रूप से सहयोग करते हुए, हमारी नई गाइड देखें और अंतर्राष्ट्रीय भोजन की पड़ताल करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पहली पीढ़ी के कई कैनेडा वासी, घर का बना भोजन खाते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि माता-पिता अपने आसपास मौजूद भोजन के साथ-साथ, अपने मूल देश का स्वाद भी चाहते थे। सफल शेफ, इन स्वादों के मेल से ही प्रेरित हुए और वे हमारे शहर के अंदर उपलब्ध, शानदार मिले-जुले व्यंजन पेश करते हैं।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन की विविध आबादी को पूरी दुनिया के अपने बेजोड़ स्वादों को साझा करने पर गर्व है। ब्रैम्पटन कई प्रतिभाशाली शेफ्स का घर है, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से प्रेरित होकर, नए-नए व्यंजन बनाते हैं। हमारी गाइड की पड़ताल करके, आप अपना नया लोकल पसंदीदा भोजन ढूंढ सकते हैं!”

- *हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, चेयर, कापॉरिटेड सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और 700,000 से अधिक ऐसे लोगों की, कैनेडा की नौवीं सबसे अधिक आबादी के लिए घर है, जिनसे मिलकर हमारा जोशीला समुदाय बनता है। यह विविधता, पूरी सिटी में उपलब्ध व्यंजनों में दिखाई देती है। हमें यह नई गाइड पेश करते हुए खुशी हो रही है, जिससे हमारे निवासी, लोकल को सहयोग करते हुए ग्लोबल स्वादों की पड़ताल कर सकते हैं।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca